

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 631]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2014—पौष 8, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1773.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, खातेगांव, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, खातेगांव, जिला देवास	अध्यक्ष	-	निलेश कैलाशचंद जोशी	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	सीमा पति संजय कुमार बंसल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	रघुवीर पिता श्रीराम पंवार (पटेल)	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	लक्ष्मीबाई पति मुकेश गिरि	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	कमलाबाई पति मोहनसिंह गुर्जर (मण्डलोई)	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	गिरजा तिवारी अजय तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः गुलाबबाई बंशीलाल पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात कदमजीत छगनलाल लोदवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	पार्षद	8	आठ	नितिन पिता रामभरोस विश्णोई	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
10	पार्षद	9	नौ	लतिवन पति नूर मो. मंसूरी	भारतीय जनता पार्टी	
11	पार्षद	10	दस	राजेश किसनलाल पर्ते	भारतीय जनता पार्टी	
12	पार्षद	11	ग्यारह	प्रदीप पिता राधेश्याम जाधव	भारतीय जनता पार्टी	
13	पार्षद	12	बारह	रंजना सूरज यादव	भारतीय जनता पार्टी	
14	पार्षद	13	तेरह	भारती पति अनिल यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
15	पार्षद	14	चौदह	दीनदयाल रावडिया	भारतीय जनता पार्टी	
16	पार्षद	15	पन्द्रह	कमल पिता सुरेशचंद्र कासलीवाल(भुरु)	इंडियन नेशनल कांग्रेस	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1774.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बागली, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बागली, जिला देवास	अध्यक्ष	-	-	“अमोल मगनलाल राठौर”	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	दीपा जितेन्द्र पंचोरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	गुरूशरण भाटिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	लक्ष्मी हरजीतसिंह ग्रेवाल	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	कमलेश-कन्हैयालाल परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	“साहेबराव मराठा”	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मोहनसिंह वास्केल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	श्रीमति कविता W/O राजेश तंवर	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	गायत्री पति अरूण (अन्ना)	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	यूनुस सुलेमान शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	जगदीश राठौर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	“पुरुषोत्तम (परू) सिसोदिया”	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	श्यामा राजबहादुरसिंह तोमर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	कृष्णा-सुरेशचन्द्र यादव	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	रेखाबाई पति देवीसिंह	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	“मनोहरसिंह भीमसिंह उदावत”	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1775.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सोनकच्छ, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, सोनकच्छ, जिला देवास	अध्यक्ष	-	-	कुं. राजवीरसिंह बघेल "राजू भय्या"	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	"उषाबाई सोलसे"	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	ओमप्रकाश मोतीलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	दीपेन्द्र सूरजसिंह ठाकुर (दीपू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	पपलू छाबड़ा सिंदे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	नरेन्द्र गुप्ता "नटु"	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	महेन्द्रकुमार छाबड़ा "बल्ली सेठ"	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	बबीता ठाकुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	शेरू बी-शब्बीर खां	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	नसीम बी रसीद खां	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	"श्रीमती नुरबी अजब खाँ "पठान"	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती कल्पना सुरेन्द्र चौधरी	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	मालती संतोष तीवारी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	कुसुम धर्मेन्द्र नामदेव	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	प्रेम मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	विनोद चौधरी "वीनू"	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1776.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, भौरासा, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, भौरासा, जिला देवास	अध्यक्ष	-	-	सीमा राजेन्द्र यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	मंजुबाई राजेश माली	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	मूलचन्द उस्ताद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	प्रियम्बदा अशोक नागर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	जयसिंह राणा लालसिंह पहलवान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	राजेया शकील	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	गोवरधन मोतीलाल	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	फुन्दाबाई बाबूलाल चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	रेखाबाई सुरेशचन्द्र मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	नवीन मोहनलाल यादव	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	जीवनसिंह ठाकुर (गेंदा ठाकुर)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	अजय यादव (सिटी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती रुखसाना बी W/O जाहिद मन्सूरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	बुशरा अबरार गाँधी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	नजमा बी चान्द खाँ पठान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	बहादरसिंह बापूसिंह भाटिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1777.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, हाटपिपल्या, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, हाटपिपल्या, जिला देवास	अध्यक्ष	-	-	माणक बापूलाल धोसरिया	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	राहुल तवर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	राजेन्द्र रावत	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	तेजुबाई तलाया	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	हारून लतीफ मंसूरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	अशोक पटेल (कप्तान)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	सीमा विनोद जोशी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	शैलेन्द्र राजावत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	मधु फूलचंद धोसरिया	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	मिसर बाई जाट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	महेश पांचाल	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12		पार्षद	11	ग्यारह	जसोदा संतोष बिंजवा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	ज्योति पति ओमप्रकाश	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रोनक S/O राजेन्द्र गामी	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	चन्द्रकांता-अरुण राठौर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	पिंकी W/O सोनू भैरवे	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1778.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, करनावद, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, करनावद, जिला देवास.	अध्यक्ष	-	-	कांता-राधेश्याम पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रेखा-संतोष लोधी	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	रुकसाना-अकरम पठान	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	विध्या डॉ. रवि शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती प्रेमबाई पति राधेश्याम पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	लालाजी नायक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	सागरमल पाटीदार	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	प्रमोद भवानीशंकर उपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	प्रकाश धनगर	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	रुबीनाबी-मोबीनखा मंसुरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	सरजूबाई-कन्हैयालाल (गलू दा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	अंतरसिंह चौहान पिता नानुराम जी चौहान	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	हरुबाई-रामसिंग	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	भारत-गंगाराम रावत	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	गौरीबाई पति मुकेश सौलंकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	विक्रम-बालू जी गांगोली	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1779.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कन्नौद, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, कन्नौद, जिला देवास.	अध्यक्ष	-	-	दीपक मोहनलाल अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	अलका-राधेश्याम	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	मोहन हीरालाल सारदिया	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रसीदन बी अबे खां	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शहनाज पति मुन्ना खां	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	विद्या सोलंकी W/O संजय सिंह सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मनोज पिता रामनारायण साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	(अज्जू) अजीतसिंह S/O मलखानसिंह चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	अलका मोहन पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	नरेन्द्र दरबार	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	संजय झांजोट	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	विनोद सालिगराम मालवीय (गोलु)	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	गीताबाई राजेन्द्र शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रेखा पति दिलीप बिंजवा	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	राजूबाई मदनलाल चौहान	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	किरणकुमार-हरीप्रसाद उइके	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1780.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सतवास, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, सतवास, जिला देवास.	अध्यक्ष	-	-	छोटी बी वहीद खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नगर परिषद्, सतवास, जिला देवास.	पार्षद	1	एक	कैलाश गोपालकृष्ण पण्डा	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	रुबाब खां कमाल खां	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	रितु योगेश जैन	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	स्वाती राम नोगजा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सोनम संजय योगी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	ममता बाई अर्जुन सिंह	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	रामसिंह अमरसिंह देवड़ा	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	सतनाम सिंह दयालसिंह	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	शेरबानो कय्यूम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	सतीश देवीलाल कनोजिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	मुनीशा बी शब्दर खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	इकबाल ईस्माईल खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	सकीना बी हैदर खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	समीद खां समंद खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अलका प्रयागनारायण	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1781.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कांटाफोड, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, कांटाफोड, जिला देवास.	अध्यक्ष	-	-	काकड़वाल भूरी बाई विजय सिंह	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	गणपति रामगोपाल तंवर	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	रामदुलारी हीरालाल जोशी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	मंजु बाई राजेंद्र कुमार शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शैतान जयराम नागराज	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	शिव प्रकाश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	परवीन मेहमुंद खां	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	संध्या बराया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	रेखा संतोष तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सलाम शाह टेलर	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	नगर परिषद्, कांटाफोड, जिला देवास.	पार्षद	10	दस	रहीश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	सकीला बी (सक्की बाई)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	सुकिया बोंदर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	कैलाश जगराम कर्मा	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	रामप्यारी रामसिंह	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सीताराम	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1782.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, लोहरदा, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, लोहरदा, जिला देवास.	अध्यक्ष	-	-	लाड़की लक्ष्मण	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	अनिल S/o सत्यनारायण भूतड़ा	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	खुशबू योगेश पाटोदी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	रहीश एमु शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	हरिप्रसाद पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	कमला रमेश	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	अमीना सगिर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	कृष्णा प्रहलाद माली	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	गीताबाई भगवान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	कृष्णाबाई हरिप्रसाद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	भारत रामकिशन	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	शब्बीर गबुखां पटेल	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	गणेश नन्दलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	शकुंतला पति भारतसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	शंकर जतन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	उमा राजेश	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1783.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, नेमावर, जिला देवास के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, नेमावर, जिला देवास.	अध्यक्ष	-	-	मनोरमा पति रेवाशंकर यादव	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	क्षमा पति लक्ष्मण	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	कु शक्ति प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	कुंवर सिंह भाटिया	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	अखिलेश (पप्पू) पूरी बाबा	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	विमला पति किशोर ढीमर	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मंजू पति सतीश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	दिप्ती नितीन अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	गायत्री बाई पति हरिप्रसाद राठौर	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	अनुराधा जोशी	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	कस्तुरा बाई कोरकू	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	जुबेदा पति इसराईल	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	अतर बाई मांगीलाल पटेल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	प्रेम बाई पति शोभाराम	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	दिनेश पिता नर्मदाप्रसाद केवट	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कु. शक्तिसिंह तोमर	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.